



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042025-262195
CG-DL-E-02042025-262195

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1509]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2025/चैत्र 7, 1947

No. 1509]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2025/CHAITRA 7, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2025

का.आ. 1527(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3843(अ) तारीख 28.08.2024 जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र तारीख 06.09.2024, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र राज्य में मुंबई—नागपुर—झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के खंड नागपुर—झारसुगुडा पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी।

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है।

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिष्पन्न किया है।

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है।

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इंडिया) लिमिटेड में निहित होगा।

मुम्बई-नागपुर-झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइप लाइन						
अनुभाग – नागपुर – झारसुगुडा						
अनुसूची						
राज्य : महाराष्ट्र						
जिला	तालुका	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5		
भंडारा	मोहाडी	डोंगरगांव	1486	00	01	77
भंडारा	तुमसर	परसवाडा (देवाडी)	378	00	09	53

[फा. सं. एल-14014/130/2022-जीपी-III/(ई-43334)]

रामजी लाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2025

S.O. 1527(E).—Whereas by the notification of the Government of India, in Ministry of Petroleum & Natural Gas vide S.O. No 3843(E) dated 28.08.2024; issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra ordinary Gazette of India dated 06.09.2024, the Government of India declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Pipeline for transportation of natural gas through Mumbai–Nagpur–Jharsuguda (Section:- Nagpur- Jharsuguda) pipeline in the state of Maharashtra by GAIL (India) Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered of by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section (6) of the said Act, the Government of India hereby declares that the Right of User in the said lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, Government of India hereby directs the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on the date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

Mumbai-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline						
Section- Nagpur-Jharsuguda						
SCHEDULE						
State : Maharashtra						
District	Taluka	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5		
Bhandara	Mohadi	Dongargaon	1486	00	01	77
Bhandara	Tumsar	Paraswada (Dewadi)	378	00	09	53

[F. No. L-14014/130/2022-GP-II/(E-43334)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.